



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10-जुलाई 16, 2004 (आषाढ़ 19, 1926)
No. 28] NEW DELHI SATURDAY, JULY 10-JULY 16, 2004 (ASADHA 19, 1926)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची :

| | | | |
|--|-----|--|------|
| भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं | 671 | भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संव शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) | |
| भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं | 691 | भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश | |
| भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं | 3 | भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 585 |
| भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 887 | भाग III—खण्ड 2—पेटेंट विभाग द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस | 4977 |
| भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम | * | भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन प्रयत्न द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | — |
| भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ | * | भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विधियों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं | 3027 |
| भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट | * | भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस | 195 |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संव शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) | * | भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की दर्शा वाला सम्पूर्णक | * |
| भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संव शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं | * | | |

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

1-141-31/2004

(671)

CONTENTS

| | Page | | Page |
|--|------|---|------|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 671 | PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) | |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 691 | PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence | |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence | 3 | PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India | 585 |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence | 887 | PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs | 4977 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations | | PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners | — |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations | | PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies | 3027 |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills | | PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies | 195 |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | | PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi | |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | | | |

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2004

संकल्प

सं० 8(5)/2003-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय ने निर्धारित विषय पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने वाले लेखकों और प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संसदीय प्रणालियों और पद्धतियों से संबंधित विषयों अथवा मंत्रालय को आवंटित विषयों से संबंधित अथवा किसी विशेष वर्ष में मंत्रालय द्वारा निर्धारित विषय पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन या अन्य भाषाओं से पुस्तकों हिन्दी में अनुवाद करने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने की योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से होंगी :—

1. योजना का नाम

इस योजना का नाम “संसदीय हिन्दी पुस्तक पुरस्कार योजना” होगा।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य निर्धारित-विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने वाले लेखकों और प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद का प्रोत्साहन देना है।

3. विषय

पुस्तक (मौलिक अथवा अनुदित) का विषय संसदीय प्रणाली, प्रक्रिया और पद्धति से संबंधित किसी भी विषय पर हो सकता है।

4. पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार निम्न प्रकार से होंगे :—

मूल पाण्डुलिपि

(क) प्रथम पुरस्कार : ₹० 50,000/- (रुपए पचास हजार केवल)

(ख) द्वितीय पुरस्कार : ₹० 30,000/- (रु० तीस हजार केवल)

(ग) तृतीय पुरस्कार : ₹० 20,000/- (रु० बीस हजार केवल)

अनुवाद

(क) एक पुरस्कार : ₹० 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार केवल)

प्रत्येक पुरस्कार के साथ एक पत्र भी दिया जाएगा।

5. पात्रता

इस योजना में भारत सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित प्रत्येक भारतीय नागरिक भाग ले सकता है। योजना में मूल्यांकन समिति के सदस्य/अध्यक्ष भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय के कर्मचारी भी इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

6. मूल्यांकन समिति

(1) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों/पाण्डुलिपियों को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कारों की सिफारिश करने के लिए 5 सदस्यों की एक मूल्यांकन समिति होगी। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय मूल्यांकन समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय और राजभाषा विभाग प्रत्येक से एक-एक अधिकारी इस मूल्यांकन समिति के सदस्य होंगे। शेष दो सदस्य पुस्तक के विषय पर हिन्दी भाषा के जानकार गैर-सरकारी विशेषज्ञ होंगे।

(2) मूल्यांकन समिति के गैर-सरकारी सदस्य व्यक्तिगत रूप में पुस्तकों/पाण्डुलिपियों के अध्ययन के पश्चात् अपनी सिफारिशें संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे।

(3) गैर-सरकारी विशेषज्ञों की सिफारिशों पर मूल्यांकन समिति की बैठक में विचार किया जाएगा और तदनुसार पुरस्कारों का निर्णय लिया जाएगा।

(4) मूल्यांकन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के पश्चात् पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।

(5) मूल्यांकन समिति के सभी गैर-सरकारी सदस्यों को मूल्यांकन कार्य के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित मन्देश दिया जाएगा और बैठक में भाग लेने के लिए नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

7. पुस्तक/पाण्डुलिपि लेखन की अवधि

योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तक/पाण्डुलिपि वर्ष 2001 से 2003 तक तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान लिखी/प्रकाशित होनी चाहिए।

8. सामान्य निबंधन और शर्तें

योजना में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को निम्नलिखित निबंधन और शर्तों का पालन करना होगा और वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निबंधन और शर्तों द्वारा विनियमित होंगे :—

(1) रोजगार समाचार (हिन्दी संस्करण) सहित प्रमुख समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन के द्वारा लेखकों से आवेदन मंगाए जाएंगे।

(2) योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों और पाण्डुलिपियां स्वीकृत की जाएंगी। लेखकों द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तकों/पाण्डुलिपियां निर्धारित अवधि के दौरान लिखी/प्रकाशित होनी चाहिए।

(3) लेखकों से यह अपेक्षित होगा कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ पुस्तक/पाण्डुलिपि की पाँच प्रतियाँ, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, 8, संसद भवन, नई दिल्ली को निर्धारित तारीख से पहले भेजें। इस प्रकार प्राप्त पुस्तक/पाण्डुलिपि को लौटाया नहीं जाएगा।

(4) आवेदन पत्र के साथ लेखक की पासपोर्ट आकार की दो फोटो संलग्न होनी चाहिए।

(5) निर्धारित तारीख के पश्चात् प्राप्त पुस्तकों/पाण्डुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा। पुस्तकों/पाण्डुलिपियों के डाक में खो जाने अथवा ढेर से प्राप्त होने के लिए मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) लेखकों का अपनी पुस्तकों/पाण्डुलिपियों पर कापी-राइट अधिकार बना रहेगा।

(7) योजना के अन्तर्गत केवल उन पुस्तकों को स्वीकार किया जाएगा जो या तो मूल रूप में हिन्दी में लिखी गयी हों या किसी अन्य भाषा से हिन्दी में अनूदित की गई हो।

(8) पुस्तक/पाण्डुलिपि किसी अन्य भाषा में पहले लिखी या प्रकाशित पुस्तक का उसी लेखक द्वारा हिन्दी अनुवाद नहीं होना चाहिए।

(9) पुस्तक/पाण्डुलिपि लेखक के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया हिन्दी रूपान्तर नहीं होना चाहिए।

(10) पुस्तक/पाण्डुलिपि उच्च कोटि की होनी चाहिए जो कि एम० फिल० डिप्लोमा के समकक्ष हो।

(11) पुस्तक/पाण्डुलिपि जिसे पहले सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त हो चुका है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(12) यदि पुस्तक/पाण्डुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की धनराशि उनमें बराबर बाँट दी जाएगी।

(13) यदि पुस्तक/पाण्डुलिपि किसी भी पुरस्कार के लिए अपेक्षित स्तर की नहीं पाई जाती है तो, मूल्यांकन समिति यदि ठीक समझे, उस पुस्तक/पाण्डुलिपि के लिए किसी धनराशि

(न्यूनतम पुरस्कार से कम) का सौत्वना पुरस्कार देने की सिफारिश कर सकती है।

(14) पुस्तक/पाण्डुलिपि को पुरस्कार के लिए चुनने अथवा उसकी चुनने की प्रक्रिया के संबंध में किसी पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(15) पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार एक समारोह अथवा किसी उपयुक्त अवसर पर प्रदान किए जाएंगे, जिसके बारे में पुरस्कार विजेताओं को सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दे दी जाएगी।

(16) दिल्ली से बाहर के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी का किराया दिया जाएगा।

(17) संसदीय कार्य मंत्रालय को पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन और ऐसे चयन को विनियमित करने का अनन्य अधिकार होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विवेक अग्निहोत्री, सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2004

सं० एक्स० 19014/1/95-डी०एम०एस० एण्ड पी०एफ०
ए०-दिनांक 12-3-1991 के संकल्प संख्या एक्स 19020/1/
89-डी०एम०एस० एण्ड पी०एफ०ए० द्वारा गठित की गई
भारतीय भेषज संहिता समिति के कार्यकाल, जिसे 11-3-
2004 तक बढ़ाया गया था, को आगे 6 महीने की अन्तिम
अवधि के लिए अर्थात् 11-9-2004 तक बढ़ाया जाता है।

समिति की अन्य निबन्धन और शर्तें वही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली और भारतीय भेषज संहिता समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजी जाए।

नीता केजरीवाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 2004

सं० 8-33/2003-पी०पी०-I:— भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की दिनांक 26-11-1993 की अधिसूचना सं 8-97/91-पी०पी०-I में आंशिक संशोधन करते हुए सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निर्यात किए जाने वाले टिशू कल्चर उत्थित पादपों के संग्रह में जाँच करने प्रथम या निस्संक्रमण करने तथा पादप अरोग्य प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत संस्थानों की सूचना में, निम्नलिखित संस्थान जोड़े जाते हैं।

2. दिनांक 26 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना में क्रम संख्या 7 के पश्चात् शीर्षक के नीचे एतद्वारा निम्नलिखित जोड़ा जाता है।

8, अध्यक्ष, पादप वाइरस विज्ञान उन्नत केन्द्र,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली

9, अध्यक्ष
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान
हसरगट्टा, बंगलौर

10, अध्यक्ष,
हिमालयन जैव-संसाधन प्रौद्योगिकी,
पालमपुर, हिमाचल प्रदेश

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 24th June, 2004

RESOLUTION

No. F. 8(5)/2003-Hindi—The Ministry of Parliamentary Affairs has decided to launch a Scheme for giving awards to authors writing original books in Hindi or translating books from other languages into Hindi on the subjects related to Parliamentary systems and procedures or related to the subjects allocated to the Ministry or the subject specified by the Ministry in a particular year, with the object of giving encouragement to authors to write original books in Hindi as well as translate into Hindi works of reputed authors on the subject. The main features of the scheme will be as under :-

1. NAME OF THE SCHEME

The Scheme will be called 'Parliamentary Hindi Book Prize Scheme'.

2. OBJECTIVES

The aims of this Scheme will be to give encouragement to authors to write original books in Hindi as well as translate into Hindi works of reputed authors on the specified subjects.

3. SUBJECT

The book (original or translated) may be on any topic concerned with Parliamentary systems, processes and procedures.

4. THE AWARDS

The Awards to be given under the Scheme will be as under :-

Original Manuscripts

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| (a) First Prize | : Rs. 50,000/- | (rupees fifty thousand only) |
| (b) Second Prize | : Rs. 30,000/- | (rupees thirty thousand only) |
| (c) Third Prize | : Rs. 20,000/- | (rupees twenty thousand only) |

Translations

- (a) One Prize : Rs. 25,000/- (rupees twenty five thousand only)

Each of the awards will be accompanied with a certificate.

5. ELIGIBILITY

Every Indian citizen, including the employees of Government of India/State Government, can participate in the Scheme. Member/Chairman of Evaluation Committee will not be eligible to participate in the Scheme. The employees of the Ministry of Parliamentary Affairs too shall not be eligible to participate in the Scheme.

6. EVALUATION COMMITTEE

(1) There shall be an Evaluation Committee of five members to recommend the prizes to be awarded on book/manuscript received under this Scheme. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs shall be ex-officio Chairman of the Evaluation Committee. One officer each from the Ministry of Parliamentary Affairs and Department of Official Language shall be the member of the Evaluation Committee. Remaining two Members will be non-official Hindi Language knowing experts on the subject of the book.

(2) Non-official Members of the Evaluation Committee shall give their recommendations after studying the books-manuscripts individually to the Ministry of Parliamentary Affairs.

(3) The recommendations of the non-official expert will be considered in the meeting of the Evaluation Committee and the prizes shall be decided accordingly.

(4) Prize shall be announced after the decision taken in the meeting of the Evaluation Committee.

(5) All non-official Members of the Evaluation Committee shall be paid honorarium prescribed by the Ministry for the evaluation work and TA/DA for attending the meetings as admissible under the rules.

7. PERIOD OF WRITING BOOK/MANUSCRIPT

Book/Manuscript presented under the scheme should have been written/published during the three years 2001 to 2003.

8. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

The participants of the Scheme will have to abide by and will be governed inter alia by following terms and conditions :—

(1) Applications will be invited from the authors through an advertisement in leading Newspapers/Journals, including the Employment News (Hindi Edition).

(2) Published Books as well as Manuscripts, will be accepted under the Scheme. Books/manuscripts submitted by the authors should have been written/published during the prescribed period.

(3) The authors are required to submit their applications alongwith five copies of the book/manuscript to the Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, 8 Parliament House, New Delhi before the specified date. Book/Manuscript so received will not be returned.

(4) The application should be accompanied with two passport size photographs of the author

(5) Books/manuscripts received after the specified date will not be considered. Ministry will not be responsible for late receipt or loss in transit of books/manuscripts.

(6) The authors will continue to have the copyright of their books/manuscripts which received the Awards.

(7) Only those books will be accepted under the Scheme which are either written originally in Hindi or translated into Hindi from some other language.

(8) The book/manuscript shall not be the Hindi version of a book already written or published in any other language by the same author.

(9) The book/manuscript should not be a Hindi version done by any professional translator other than the author.

(10) The book/manuscript shall be of a high quality equivalent to an M.Phil dissertation.

(11) A book/manuscript which have already received an award under any other scheme of the Government shall not be accepted.

(12) If there are more than one author of a book/manuscript, the amount of prize will be equally distributed among them.

(13) In the event of a book/manuscript being adjudged not upto the required standard for any of the awards, the Evaluation Committee may recommend a consolation prize of any amount (less than the minimum prize) for that book/manuscript, if it deems fit.

(14) No correspondence will be entertained regarding selection of a book/manuscript for awarding the prize or the selection procedure in regard thereto.

(15) Prizes will be awarded to prize winners at a function or at an appropriate occasion, an intimation about which will be given to the Prize Winners by the Ministry of Parliamentary Affairs.

(16) 2nd class rail fare will be given to the out-station prize winners for attending the prize distribution function.

(17) The Ministry of Parliamentary Affairs shall have exclusive right to select the recipients of the awards and the regulation of such selection.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and all Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. AGNIHOTRI
Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 18th June 2004

RESOLUTION

No. X. 19014/1/95-D/DMS & PFA—The term of the Indian Pharmacopoeia Committee constituted vide Resolution No. X. 19020/1/89-DMS & PFA dated 12-3-1991, which was extended upto 11-3-2004, is further finally extended for a period of six months, i. e. upto 11-9-2004.

The other terms and conditions of the Committee will remain the same.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be sent to all the Ministries/Departments of the Govt. of India, Directorate General of Health Services, New Delhi and all the Members of the India Pharmacopoeia Committee.

Ordered that a copy of the Resolution be sent for publication in the Gazette of India for general information.

NITA KEJREWAL
Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

New Delhi, the 7th June 2004

No. 8-33/2003-PP. I—In partial modification of the Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation,

Notification No. 8/97/91-PP. I dated 26th November 1993, it is notified for general information that the following institutions are added to the list of authorized institutions to inspect, fumigate or disinfect and issue Phytosanitary Certificates in respect of exportable tissue culture raised plants.

2. In the notification No. 8-97/91-PP. I dated 26th November, 1993 below heading 2 after serial No. 7, the following is hereby added.

8. Head, Advance Centre for Plant Virology, Indian Agriculture Research Institute, PUSA, New Delhi.
9. Head, Indian Institute of Horticulture Research, Hasarrgatta, Bangalore.
10. Head, Institute of Himalayan Bio-resources Technology, Palampur, Himachal Pradesh.

ASHISH BAHUGUNA
Joint Secretary